



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 21-सितम्बर 27, 2008, शनिवार/भाद्र 30-आश्विन 5, 1930

No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 21-SEPTEMBER 27, 2008, SATURDAY/BHADRA 30-ASVINA 5, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खान ब्यूरो (फराश) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान ब्यूरो (फराश) समूह 'घ' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय खान ब्यूरो (फराश) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 की अनुसूची में, स्तंभ 13 में, पद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से समूह 'क' अधिकारी"।

[फा. सं. 22/18/2007 एम. III]

आर. के. मल्होत्रा, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 196, तारीख 29 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 16th September, 2008

G. S. R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Bureau of Mines (Farash) Group "D" Post Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Farash) Group "D" Post Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Bureau of Mines (Farash) Group "D" Post Recruitment Rules, 2007 in column 3, for item 3, the following shall be substituted, namely :—

"(3) Group 'A' Officer from any other Central Government Office".

[F. No. 22/18-2007-M. III]

R. K. MALHOTRA, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 196 dated the 29th September, 2007.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 181.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खान न्युरो (हिंदी अनुवादक) समूह 'D' पद धर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान न्युरो (हिंदी अनुवादक) समूह 'D' पद धर्ती (संशोधन) नियम, 2008 रहेगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रचुर होंगे।

2. भारतीय खान न्युरो (हिंदी अनुवादक) समूह 'D' पद धर्ती नियम, 2007 की अनुसूची में,

(i) श्रेण (7) को प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"30 वर्ष (10.5 सरकारी सेवकों के लिए, जिसमें उम्र लाइन या सहायक कटौत में तीन वर्ष अंतर सेवा को है, सामान्य अवस्थितियों की दृष्टि में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अवस्थितियों की दृष्टि में 35 वर्ष तक शिक्षा को आसफरों है)।";

(ii) श्रेण (8) में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"ज्यातक परीक्षा में हिनको अतिरिक्त या वैकल्पिक क्रिय के रूप में रहा हो।";

(iii) श्रेण (13) में, पद (2) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"(2) खान उपनिर्देशक अथवा प्रमोशन अधिकारी/खनिज अर्थशास्त्री/क्षेत्रीय खान भू वैज्ञानिक - सदस्य"।

[F. No. 22/18-2006 एम. III]

अवर. के. पल्लवीरा, डी. सी. से.

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 214, तारीख 11 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशन किए गए थे।

New Delhi, the 16th September, 2008

G. S. R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Bureau of Mines (Hindi Translator) Group "C" Post Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Hindi Translator) Group "C" Post Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Bureau of Mines (Hindi Translator) Group "C" Post Recruitment Rules, 2007

(i) in column (7), for the entry, the following shall be substituted, namely :

"30 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in case of general candidates and 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, with three years' continuous service in the same line or allied cadre).";

(ii) in column (8), for entry 2, the following shall be substituted, namely:—

"Hindi as a compulsory or elective subject at Degree examination.";

(iii) in column (13), for the entry against item (2), the following shall be substituted, namely :

"(2) Deputy Controller of Mines/Ore Dressing Officer/Mineral Economist/Regional Mining Geologist—Member."

[F. No. 22/4/2006-M. III]

R. K. MALHOTRA, Dy. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 214, dated the 11th October, 2007.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 182. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खान ब्यूरो (विजली पर्यवेक्षक श्रेणी-1, विजली पर्यवेक्षक श्रेणी-2 और विजली मिस्त्री) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान ब्यूरो (विजली पर्यवेक्षक श्रेणी-1, विजली पर्यवेक्षक श्रेणी-2 और विजली मिस्त्री) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय खान ब्यूरो (विजली पर्यवेक्षक श्रेणी-1, विजली पर्यवेक्षक श्रेणी-2 और विजली मिस्त्री) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 की अनुसूची में, स्तंभ 13 में, पद 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. केंद्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से समूह 'क' अधिकारी - सदस्य"।

[फा. सं. 22/5/2005-एम. III]

आर. के. मल्होत्रा, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 134, तारीख 25 जून, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 16th September, 2008

G. S. R. 182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Bureau of Mines (Electrical Supervisor Grade-I, Electrical Supervisor Grade-II and Electrician), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Electrical Supervisor Grade-I, Electrical Supervisor Grade-II and Electrician), Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Bureau of Mines (Electrical Supervisor Grade-I, Electrical Supervisor Grade-II and Electrician), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2007, in column 13, for item 3, the following shall be substituted, namely :—

"3. Group 'A' Officer from any other Central Government Office - Member."

[F. No. 22/5/2005-M. III]

R. K. MALHOTRA, Dy. Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 134, dated the 25th June, 2007.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 319 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय के फरवरी चैरज परियोजना के रोगविज्ञानी पद के लिए निर्माणार्थक नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के रोगविज्ञानी, रोगविज्ञान समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रचुर होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और चैतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके चैतनमान ये होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता.**—यह व्यक्ति,

(क) विधवा एम व्यक्ति से विवाह पूर्व या विधवा पत्नी जीवित है, विवाह किया है।

(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह मतान्वित हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विधवा के अन्य प्रश्नकार को लागू नहीं किया जाये कि अधीन अनुसूची है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के परन्तुक में उल्लेख करेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार को यह मालूम हो जाता है कि ऐसा करता आवश्यक है, तब वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें खेतरा करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर इन नियमों के किसी उपबंध का किसी तथा या प्रबंधों से व्यक्तियों को बाधित, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आशय, आयु-सीमा में छूट और अन्य विधानों पर परन्तुक नहीं लागू होगी, जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम में समान समय पर निकाला गए अधिनियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शूद्राधारी स्त्रीयों को प्राप्त विशेष प्रबन्ध के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	चैतनमान	भर्ती पर अथवा अद्यतन पद	संघ में जोड़े गए पदों का फोवर कन्ट्राय सिविल सेवा (सिंधु) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुसूचित है या नहीं	संघ भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूची
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रोग विज्ञानी	01(2008)*	साधारण सिविल सेवा समूह 'क', रोगविज्ञान	10,000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	40 वर्ष से अनाधिक
	*कार्यभार के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।	अनुसूचित	15,000 रु.			केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुसूची या आदेशों के अनुसार स्वीकृत संकेतों के लिए 5 वर्ष तक निर्धारित की जा सकती है।

टिप्पणी : आयु सीमा आवश्यकता के लिए निर्माणार्थक तारीख भाग में व्यक्तियों से आवश्यक प्राप्त करने के लिए नियत की गई अधिक तारीख।

(7)

होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के बांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष।

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली या दूसरी या तीसरी अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान (स्नाइसेन्सिएट अर्हताओं से भिन्न) तीसरी अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हता धारकों की थी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबंधित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए।

(ii) अनुसूची अ या अनुसूची 4 खंड ब में सम्बद्ध विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समतुल्य अर्थात् एम.डी. (रोग विज्ञान), एम.डी. (रोग विज्ञान और जीवाणु विज्ञान) एम.डी. (जीवाणु विज्ञान के साथ रोग विज्ञान) एम.एस.सी. (रोग विज्ञान), एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान रोग विज्ञान), पी.एन.डी. (रोग विज्ञान), डी.एस.सी. (रोग विज्ञान), रोग विज्ञान (यू.एस.ए.) डी.सी.पी. डी.पी.बी. में विशेषज्ञता बोर्ड या समतुल्य।

(iii) स्नातकोत्तर डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्ध विशेषज्ञता में तीन वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् 5 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपबल्ल होने की संभावना नहीं है।

3466 48108-2

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा
या प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पदवियों
द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा भर्ती की दृष्टि में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति
प्रतिनिधित्व/आमेलन किया जाएगा

(11)

सीधे भर्ती द्वारा

(12)

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परामर्शियों में सेब केब में
आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टिकरण के लिए जिसमें
निम्नलिखित होंगे :-यदि कोई भर्ती समित में सेब केब में आयोग से परामर्श
करना आवश्यक है :-

1. संयुक्त मांचल (पश्चात्तत), जल संसाधन संग्रालय : अध्याक्ष
2. डन सचिव या निदेशक (फरक्का बैरज परियोजना) : अध्यक्ष
- जल संसाधन संग्रालय : अध्यक्ष
3. महाप्रबन्धक, फरक्का बैरज परियोजना : अध्यक्ष

[पृष्ठ सं. 27/2008 ड 111]

पृष्ठ सं. गुजरा, अक्षर सं. 27/2008

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd September, 2008

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for the post of Pathologist in the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, namely:

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called Ministry of Water Resources, the Farakka Barrage Project, Pathologist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication of the notification in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, to the said post age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (7) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person,

(shall be eligible for appointment to the service).

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pathologist	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Civil Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200	Not applicable	No	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)

Essential:

(i) A recognised Medical qualification included in The First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualification included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.
(ii) Post Graduate Degree or Diploma in the concerned specialty in Schedule-A or Section-B in Schedule-IV or equivalent i.e. M.D. (Pathology) M.D. (Pathology and Bacteriology), M.D. (Pathology with Bacteriology), M.Sc. (Pathology),

Not applicable

One year for direct recruitment

(6)

M.Sc. (Medical Pathology), Ph.D. (Pathology),
D.Sc (Pathology), Speciality Board of Pathology
(USA), DCP, DDPB or Equivalent

(iii) Three years experience in concerned speciality
after obtaining the post Graduate Degree or 5 years
experience after obtaining the Post Graduate
Diploma.

Note 1 : Qualification are relaxable at the discretion
of the Union Public Service Commission, for
reasons to be recorded in writing, in case of
candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualifications regarding experience
is (are) relaxable at the discretion of the Union
Public Service Commission for reasons to be
recorded in writing, in case of candidates
belonging to the Scheduled Castes or the
Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the
Union Public Service Commission is of the opinion
that sufficient number of candidates from these
communities possessing the requisite experience
are not likely to be available to fill up the posts
reserved for them.

Method of recruitment, whether by direct
recruitment or by promotion or by deputation/
absorption and percentage of the vacancies to
be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, pro-
portion from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

Direct recruitment

(12)

Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public
Service Commission is to be consulted
in making recruitment

(13)

(14)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation,
consisting of:**

Consultation with the Union Public Ser-
vice Commission, necessary for filling up
post.

1. Joint Secretary (Administration) Ministry of Water
Resources

Chairman

2. Deputy Secretary or Director (Farakka Barrage Project),
Ministry of Water Resources

Member

3. General Manager, Farakka Barrage Project

Member

[L.No. 2/2006-G.O.
N. K. GUPTA, Under Secy